



**प्रेस नोट**

**थाना डिडौली**

**दिनांक 10.06.2021**

**गैंग्स्टर अधिनियम में वांछित दस हजार रूपयें का इनामी अपराधी अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार ।**

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतीश पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना डिडौली पुलिस द्वारा गैंग्स्टर अधिनियम में वांछित इनामी अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 10.06.2021 की दोपहर समय करीब 12.20 बजे थाना डिडौली पुलिस द्वारा मुखबर द्वारा दी गई सूचना पर नारंगपुर चौराहा से पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास कर रहे गैंग्स्टर अधिनियम में वांछित चल रहे अभियुक्त रजवा उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी मौ0 इकबाल नगर कस्बा जोया थाना डिडौली को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिडौली पर मु0अ0स0 223/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 बनाम रजवा उर्फ रियाजुद्दीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त रजवा उर्फ रियाजुद्दीन शातिर किस्म का अपराधी है जिन पर गौकशी करने, गैंग्स्टर व अवैध शस्त्र रखने सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है । अभियुक्त के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रजवा उर्फ रियाजुद्दीन थाना डिडौली पर पंजीकृत मु0अ0स0 137/2021 धारा 3(1) गैंग्स्टर अधि0 में वांछित चल रहा था जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक



अमरोहा द्वारा दस हजार रुपयों का पुरस्कार घोषित किया गया था ।





### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. रजवा उर्फ रियाजुद्दीन पुत्र अलाउद्दीन निवासी मौ० इकबाल नगर कस्बा जोया थाना डिडौली, अमरोहा ।

### बरामदगी:-

1. 01 नाजायज चाकू ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त रजवा उर्फ रियाजुद्दीन:-

1. मु०अ०सं० 118/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि० व 11 पशु क्रूरता नि० अधि० थाना डिडौली, अमरोहा ।
2. मु०अ०सं० 137/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना डिडौली, अमरोहा ।
3. मु०अ०सं० 223/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना डिडौली, अमरोहा ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. हे०का० 46 रवीन्द्र कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. का० 1085 नरेन्द्र रावत थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का० 1121 आयनीश कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

